

METAL COATINGS (INDIA) LTD.

Works II: 113, HSIIDC Indl. Estate, Sector-59, Faridabad-121 004 Phone: 09999972371, Fax: 0129-2307422



Date: 26th July, 2022

To,

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

25th Floor, Dalal Street

Mumbai- 400 001

Sub.: Newspaper Publication - Notice of AGM & Remote E-voting

Ref.: Scrip Code - 531810; Scrip Id - METALCO

Dear Sir/Madam,

With reference to the above captioned subject, please find enclosed herewith the copies of Notice of 28th Annual General Meeting & Remote E-voting published by the Company by way of advertisement, in newspapers 'Financial Express' (English) and 'Jansatta' (Hindi).

You are requested to kindly take the above information on your records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Metal Coatings (India) Limited

Aditi Singh

Company Secretary & Compliance Officer

SIR SHADI LAL ENTERPRISES LIMITED Regd. Office: Upper Doab Sugar Mills, SHAMLI 247776 (UP) CIN: L51909UP1933PLC146675

Website-www.sirshadilal.com E-mail% udsm_shamli@sirshadilal.com

Notice is hereby given that pursuant to under Regulation 29(1)(a) of the SEBI (LODR) Regulations 2015 a meeting of the Board of the Directors of the Company is scheduled to be held on 30th July 2022 to consider and take on record the Unaudited Quarterly Financial Results for the guarter ended 30th June, 2022 by Electronic means/Video Conferencing. Further, the trading window for dealing in the Company's securities by the Directors/ designated Employees and their relatives will remain closed upto 48 hours after the results pursuant to the meeting are made public.

For Sir Shadi Lal Enterprises Limited

PLACE: Shamli DATED: 23.07.2022 e-auction Notice i.e. SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES published on

22.07.2022 in English Newspaper-"Financial Express" (Page No.22) & Hindi Newspaper-"Jansatta" (Page No.15) at **Sr. No. 8 & 9** (in Loan A/C M/S MAHARANI MOULDING), and Sr. No. 10 (in Loan A/C M/S GAUTAM CHEMICAL CO.) are not available for sale now. These properties have been withdrawn by the bank from E-auction process to be held on 25.08.2022. Rest of e-auction notice remains same.

जाब नेशनल बैंक 💆 pnb punjeb notional ben

Circle SASTRA Centre, East Delhi, Mayur Vihar,

Phase-II, Pocket-E, Delhi-110091

CORRIGENDUM

The General Public is hereby informed that in

Authorised Officer Punjab National Bank Date: 25.07.2022

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR UNITS OR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFER OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED.

Ajay Kumar Jain

Company Secretary



QR code to view



UNIPARTS INDIA LIMITED

Our Company was incorporated as "Uniparts India Limited" under the Companies Act, 1956 at Delhi, pursuant to a certificate of incorporation dated September 26, 1994 issued by the Registrar of Companies, Delhi and Harvana at Delhi ("RoC"). Our Company received a certificate of commencement of business on September 7, 1998 from the RoC. For details of change in the Registered Office, see "History and Certain Corporate Matters - Changes in the Registered Office" on page 180 of the draft red herring prospectus dated April 25, 2022 (the "DRHP")

Registered Office: Gripwel House, Block - 5, Sector C 6 & 7, Vasant Kunj, New Delhi 110 070, India; Tel: +91 11 2613 7979; Corporate Office: 1st Floor, B208, A1 & A2, Phase-II, Noida 201 305, Uttar Pradesh, India; Tel: +91 120 458 1400; Contact Person: Jatin Mahajan, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: + 91 120 458 1400; E-mail: compliance.officer@unipartsgroup.com; Website: www.unipartsgroup.com; Corporate Identity Number: U74899DL1994PLC061753

NOTICE TO INVESTORS: ADDENDUM TO THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS (THE "ADDENDUM")

OUR PROMOTERS: GURDEEP SONI AND PARAMJIT SINGH SONI INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 15,731,942 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF UNIPARTS INDIA LIMITED ("OUR

COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASHAT A PRICE OF ? [] PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ? [] MILLION, COMPRISING AN OFFER FOR SALE OF UP TO 15,731,942 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [+] MILLION, COMPRISING 1,700,000 EQUITY SHARES BY THE KARAN SONI 2018 CG-NG NEVADA TRUST AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 1,700,000 EQUITY SHARES BY THE MEHER SONI 2018 CG-NG NEVADA TRUST AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION AND 2,250,000 EQUITY SHARES BY PAMELA SONI AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION (COLLECTIVELY THE 'PROMOTER GROUP SELLING SHAREHOLDERS"), 7,180,642 EQUITY SHARES BY ASHOKA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED ("ASHOKA") AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION AND 2,154,192 EQUITY SHARES BY AMBADEVI MAURITIUS HOLDING LIMITED ("AMBADEVI") AGGREGATING UP TO [•] MILLION, ("ASHOKA" AND "AMBADEVI" ARE TOGETHER REFERRED TO AS THE "INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS") AND 177,378 EQUITY SHARES BY ANDREW WARREN CODE AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 177,378 EQUITY SHARES BY JAMES NORMAN HALLENE AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 177,378 EQUITY SHARES BY KEVIN JOHN CODE AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 57,420 EQUITY SHARES BY DENNIS FRANCIS DEDECKER AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 41,730 EQUITY SHARES BY MELVIN KEITH GIBBS AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 24,706 EQUITY SHARES BY WALTER JAMES GRUBER AGGREGATING UP TO ₹ [+] MILLION, 21,556 EQUITY SHARES BY WENDY REICHARD HAMMEN AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 20,870 EQUITY SHARES BY MARK LOUIS DAWSON AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 16,366 EQUITY SHARES BY BRADLEY LORENZ MILLÉR AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 10,440 EQUITY SHARES BY MARY LOUISE ARP AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 8,340 EQUITY SHARES BY DIANA LYNN CRAIG AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 7.710 EQUITY SHARES BY MARC CHRISTOPHER DORAU AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION. 5.010 EQUITY SHARES BY CRAIG A JOHNSON AGGREGATING UP TO ₹ [+] MILLION AND 826 EQUITY SHARES BY MISTY MARIE GARCIA AGGREGATING UP [•] MILLION (TOGETHER, THE "INDIVIDUAL SELLING SHAREHOLDERS", AND TOGETHER WITH THE PROMOTER GROUP SELLING SHAREHOLDERS AND THE INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS ARE COLLECTIVELY, THE "SELLING SHAREHOLDERS") (THE "OFFER FOR SALE" OR THE "OFFER"). THE OFFER WILL CONSTITUTE 34,86% OF OUR POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL.

This is with reference to the DRHP filed with the Securities and Exchange Board of India in relation to the Offer. In this regard, Bidders may note the following:

 The names of individuals and entities forming part of the Promoter Group of the Company have been disclosed in the section "Promoter and Promoter Group" beginning on page 206 of the DRHP. Consequent to the disposal by SEBI of the exemption application dated April 25, 2022 made to SEBI under Regulation 300(1)(c) of the SEBIICDR Regulations, the Company is required to include Navjit Bindra, sister of the spouse of one of our Promoters, Paramjit Singh Soni, as a member of the Promoter Group in accordance with Regulation 2(1)(pp) of the SEBI ICDR Regulations and is required to disclose the same in the DRHP.

The sub-section titled "Promoter Group" of the section 'Promoter and Promoter Group' beginning on page 208 shall now read as follows in the DRHP: Natural persons who are part of the Promoter Group

The natural persons who are part of the Promoter Group (due to their relationship with our Promoters), other than our Promoters, are as follows:

Name of Promoter	Name of relative	Relationship
Gurdeep Soni	Pamela Soni	Spouse
	Arjun Soni	Son
	Angad Soni	Son
	Tanya Kohli	Daughter
	Paramjit Singh Soni	Brother
	Sonu Kapoor	Sister
	Harminder Chatha	Spouse's mother
	Neela Goolry	Spouse's sister
Paramjit Singh Soni	Sarabjit Soni	Spouse
	Karan Soni	Son
	Meher Soni	Daughter
	Gurdeep Soni	Brother
	Sonu Kapoor	Sister
	Santosh Kaur	Spouse's mother
	Jaswinder Singh Bhogal	Spouse's brother
	Navjit Bindra	Spouse's sister

Entities forming part of the Promoter Group

The entities forming part of our Promoter Group are as follows:

- Amazing Estates Private Limited;
- Avid Maintenance LLP: Bluebells Homes Private Limited:
- Charisma Homes LLP: Farmparts Company (Partnership Firm);
- Gifting Trust of Karan Soni; Gifting Trust of Meher Soni:
- G.K.P. Farms Private Limited;
- Gripwel Fasteners (Partnership Firm): Gurdeep Soni (HUF);

- Indento International (Partnership Firm);

websites of government bodies / authorities.

- Paramjit Soni (HUF); 26. Soni Holdings (Partnership Firm); 27. Sweaty Spirit Apparel Limited;
- 16. Paramjit Soni Gifting Trust; 17. P. Soni Family Trust;
- 18. Sarabjit Soni Gifting Trust: 29. The Meher Soni 2018 CG-NG Nevada Trust: 19. Sepoy Beverages LLP;
- 20. Sepoy Drinks Private Limited; 31. Tima Trading Private Limited; and 21. SGATrading Private Limited;

24. Soni Foundation;

- 32. 7 Days Film LLC.
- Silveroak Estates Private Limited;

Leon India (Partnership Firm);

14. Paper Bag Entertainment Inc.;

13. Ninety Hospitality LLP

28. The Karan Soni 2018 CG-NG Nevada Trust;

25. Soni Family Foundation INC;

23. SKG Engineering Private Limited;

- 30. The Paramiit Soni 2018 CG-NG Nevada Trust;

- b) The following risk factor shall be added as Risk Factor number 50A of the DRHP:
- Navjit Bindra, an immediate relative of one of our Promoters, Paramjit Singh Soni and deemed to be a part of the Promoter Group under SEBI ICDR Regulations has not provided consent, information or any confirmations or undertakings pertaining to herself which are required to be disclosed in relation to the Promoter Group in this DRHP. Our Company had sought and requested. Navjit Bindra, an immediate relative of one of our Promoters, Paramjit Singh Soni and deemed to be a part of the Promoter

well as any other entities/bodies corporate/firms/HUFs that she may be interested in which would qualify as part of the Promoter Group of the Company. However, despite repeated attempts, our Company did not receive the relevant confirmations and undertakings from her. Our Company, pursuant to its letter dated April 25, 2022 had sought an exemption from the inclusion of Navjit Bindra, sister of the spouse of one of our Promoters, Paramjit Singh Soni, from inclusion in the Promoter Group of our Company on account of not receiving the relevant information, confirmations and undertakings from Navjit Bindra and also regarding the entities she may be interested in, for inclusion in this Draft Red Herring Prospectus. SEBI, pursuant to its letter dated June 15.

2022 has directed our Company to include Navjit Bindra and entities she may be interested in, as part of the promoter group of the Company.

Group under the SEBI ICDR Regulations to provide the confirmations and undertakings in respect of herself as a member of the Promoter Group of our Company as

In view of Navjit Bindra's refusal to form part of the Promoter Group of our Company, and non-receipt of the relevant confirmations and undertakings from her, in order to comply with the disclosure requirements specified under the SEBI ICDR Regulations pertaining to members of the Promoter Group of issuer companies, our Company has disclosed such details pertaining to Navjit Bindra in the section titled "Promoter and Promoter Group" beginning on page 206 of the DRHP, only to the extent available and accessible to our Company from certain publicly available information published on the websites of government bodies / authorities. However, given that certain of such undertakings and confirmations are based only on publicly available information published on the websites of government bodies / authorities our Company has not been able to identify any body corporate in which twenty per cent or more of the equity share capital is held by Navjit Bindra or a firm or Hindu Undivided Family in which Navjit Bindra is a member and consequently, our Company has not been able to identify all entities which may be considered as a part of the Promoter Group of the Company and/or include disclosures in the DRHP pertaining to any factual confirmations required to be made in relation to the Promoter Group members. There can be no assurance that all relevant and/or complete disclosures pertaining to Navjit Bindra and/or entities she may be interested in, as members of the Promoter Group of the Company are included in the DRHP. To that extent, the incremental disclosures made in the section titled "Promoter and Promoter Group" in relation to Navjit Bindra beginning on page 206 of the DRHP, are limited and based on the publicly available information published on the

The disclosures pertaining to the aforementioned exemption application dated April 25, 2022, at pages 26, 208 and 406-407 of the DRHP, under the sections titled "Summary of the Offer Document", "Promoter and Promoter Group" and "Other Regulatory and Statutory Disclosures", respectively, will be suitably updated to reflect the developments pertaining to the disposal of the said exemption application by SEBI in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, SEBI and the Stock Exchanges. The section titled "Material Contracts and Documents for Inspection", beginning on page 444 of the DRHP will also be updated in the Red Herring Prospectus and Prospectus to include details of our exemption application/letter to SEBI dated April 25, 2022, and SEBI's letter dated June 15, 2022, disposing of our application. The DRHP shall be read in conjunction with this Addendum. The information in this Addendum supplements the DRHP and updates the information in the DRHP, as applicable. However, this Addendum does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the DRHP and the date hereof, and accordingly does not include all the changes and/or updates that will be included in the Red Herring Prospectus and the Prospectus.

AXISCAPITAL	DAM CAPITAL	▲ JM FINANCIAL	LINK Intime
Axis Capital Limited 1" Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre, PB Marg, Worli, Mumbai 400 025, Maharashtra, India Tel: + 91 22 4325 2183 E-mail: uil.ipo@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in Investor Grievance E-mail: complaints@axiscap.in Contact Person: Ankit Bhatia/Pratik Pednekar SEBI Registration No.: INM000012029	DAM Capital Advisors Limited (Formerly IDFC Securities Limited) One BKC, Tower C, 15* Floor, Unit no. 1511, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India Tel: +91 22 4202 2500 E-mail: uniparts.ipo@damcapital.in Investor Grievance E-mail: complaint@damcapital.in Website: www.damcapital.in Contact Person: Chandresh Sharma SEBI Registration No.: MB/INM000011336	JM Financial Limited 7° Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025 Maharashtra, India Tel: +91 22 6630 3030/ +91 22 6630 3262 E-mail: uniparts.ipo@jmfl.com Investor Grievance E-Mail: grievance.ibd@jmfl.com Website: www.jmfl.com Contact person: Prachee Dhuri SEBI Registration No.: INM000010361	Link Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli West, Mumbai 400 083, Maharashtra, India Tel: + 22 4918 6200 E-mail: uniparts.ipo@linkintime.co.in Investor grievance e-mail: uniparts.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration No.: INR000004058

All capitalised terms used in this Addendum shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

PAR

Place: New Delhi Date: July 25, 2022

financi<mark>alexp.epap</mark>.in

On behalf of Board of Directors

For Uniparts India Limited

Company Secretary and Compliance Officer Uniparts India Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other

REGISTRAR TO THE OFFER

considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated April 25, 2022 with SEBI on April 26, 2022. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and the websites of the BRLMs. i.e., Axis Capital Limited, DAM Capital Advisors Limited (Formerly IDFC Securities Limited) and JM Financial Limited at www.axiscapital.co.in, www.damcapital.in and www.jmfl.com, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section entitled "Risk Factors" on page 27 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision. The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in offshore transactions in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made.

FINANCIAL EXPRESS

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

METAL COATINGS (INDIA) LIMITED CIN: L74899DL1994PLC063387

he Company will be held through VC/OAVM.

All the members are informed that:

Place: New Delhi

Intime India Private Limited (LIIPL) i.e. https://instavote.linkintime.co.in

electronically on the businesses as specified in the Notice of AGM.

shall not be entitled to cast their vote again

) बैंक ऑफ़ बड़ौदा

C PROPERTY.

Bank of Baroda

for e-voting then existing user ID and password can be used to cast the vote.

shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting at the AGM.

Registered Office: 912, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110019 E-mail ID: info@mcilindia.net; Website: www.mcil.net, Tel: +91-11-41808125 NOTICE OF 28th ANNUAL GENERAL MEETING & REMOTE E- VOTING INFORMATION NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 28th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Metal Coating (India) Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 17th August, 2022 at 12:30 p.m. (IST) through Vide

Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses, as set out in the Notice convenir

n accordance with the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022 and SEBI Circular No. SEBI

HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate

Affairs (MCA) and the Stock Exchange Board of India ("SEBI") (Collectively called "relevant circulars") the AGM o

n Compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 have bee

sent on 25th July 2022 only in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company's Registral

& Share Transfer Agent ("RTA") / Depository Participant(s). These documents are available on the Company's websit

viz., www.mcil.net, website of the Stock Exchange. i.e <u>www.bseindia.com</u>. and on the website of Company's RTA, Linl

The Company is pleased to provide a facility to its members to exercise their right to vote on resolutions proposed to

be passed at the AGM electronically through electronic voting (e-voting) services facilitated by the LIIPL. Members holding shares either in Physical or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 10^a August, 2022 may cast their vote

The remote e-voting period shall commence on Saturday, 13th August, 2022 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, 16th August, 2022 at 5:00 p.m. (IST). Remote e-voting will not be allowed beyond the said date and

time and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change

Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice of ÅGM and holding shares as of cut-off date i.e. 10th August, 2022, may obtain the login 1D and password by sendin

a request at enotices@linkintime.co.in or cs@mcilindia.net. However, if a person is already registered with LIIPL

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses are requested to upda

their email addresses by writing to the Company at.cs@mcilindia.net or to the RTA of the Company. Members holdin

shares in dematerialised mode are requested to register/update their email addresses with the relevant Depositor

a) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM b

b) The Facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and member attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through

In case of queries, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting instructions available at https://instavote.linkintime.co.in. under help section or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or contact

A person whose name is recorded in the register of members / beneficial owners as on the cut-off date only

For Metal Coatings (India) Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Aditi Singh

the AGM. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company. Members attend

the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Act.

पंजाब मैशनल बैंक punjab national bank

General Services Administration Division, Circle Office: New Delhi, 2nd Floor, Vikrant Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008 Ph. No.: 011-49270909, 49270910, Email: conewdelgad@pnb.co.in, conewdelhi@pnb.co.in

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the 'Scheduled Property' mentioned hereunder was taken or lease by LESSEE (TENANT) PUNJAB NATIONAL BANK from owner and lessor MADAN LAL KHANNA (HUF) on the basis of registered Lease deed Duly executed on 27-11-2009 duly registered on 02-12-2009 vide Document no. 16929 for 9 years commencing from 14-01-2009. The bank has already intimated the landlord MADAN LAL KHANNA (HUF) by letter dated 14.11.2018 that the bank is vacating the said premises on 13.02.2019.

The Lessee Punjab National Bank through its officials by personal visits and post sent the keys of premises and also informed in the office of MADAN LAL KHANNA (HUF). No one on behalf of MADAN LAL KHANNA (HUF) came forward to take the peaceful possession of the demised premises till date neither are accepting the keys sent to the

office of MADAN LAL KHANNA (HUF) at the address available in the records of Punjab National Bank. Punjab National Bank has also paid the rent till 13.02.2019 as per mutually agreed terms and Lease deed. It is further informed in public that MADAN LAL KHANNA (HUF) is communicating through a lawyer without mentioning the name of authorised signatory / Karta of MADAN LAL KHANNA (HUF). It is further informed that Punjab National Bank came to know from reliable sources that the Karta of MADAN LAL KHANNA (HUF) Late Mr. Karan Khanna is no more and till date none appeared to show his bonafide about himself/herself as Authorised Signatory / Karta of MADAN LAL KHANNA (HUF). Undersigned advocate / Officer of Bank hereby invite claims from other heir/s or claimant/s. Karta of MADAN LAL KHANNA (HUF) within a period of 14 days from the publication to

come and take the keys and vacant possession of demised property detailed as under otherwise Punjab National Bank will take action as per law and in no case liable for any rent damage with regard to use / possession / misuse of the said premises from 13.02,2019 i.e. date of vacating the said premises.

Scheduled Premises:

"Middle portion of the property with Building at 74, JANPATH, New Delhi Consisting Basement, Ground Floor, Mezzanine and First Floor" Scheduled Covered area: Covered Area Floor Covered Area Floor Basement 2272.50 Sq. Ft. Mezzanine 556.10 Sq. Ft. 2272.50 Sq. Ft Ground

Green India Palace, Labour Chowk,

Phone: 0120-2491313, 0120-2491413, E-mail-khora@bankofbaroda.co.in

Date: 25-07-2022

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI ACT)

mentioned below. We have already issued detailed Demand Notice dated as mentioned below Under Sec. 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 by Registered Post / Speed Post / Courier with acknowledge due to you which has been returned undelivered / acknowledgment not received. We have indicated our intention of taking possession of securities owned on one of you as per Sec. 13(4) of the Act in case of your faciliure to pay the amount mentioned below within 60 days. In the event of your not discharging liability as set out herein above the Bank / Secured Creditor may exercise any of the right conferred vide section 13(4) of SARFAESI Act and while publishing the possession notice / auction notice, electronically or otherwise, as required under the SARFAESI Act, the Bank / Secured Creditor may also publish your photograph. Details are hereunder:-

Name of Borrowers/Guarantors/ Date of NPA	Amount Outstanding	Details of Secured Assets:
M/S Shree Ji Enterprises (Proprietor – Mrs. Shalini Jindal), 79, Navjyoti Colony, Tehsil + District: Hapur, Uttar Pradesh - 245101 Also at: M/s Shree	11-07-2022	Hypothecation of Stock & Book Debt maintained at 19/325A, Pandav Nagar, Ghaziabad, UP-201002
Ji Enterprises (Proprietor – Mrs. Shalini Jindal), 19/325A, Pandav Nagar, Ghaziabad, UP-201001 Guarantor: Sh. Mahesh Chand Gupta S/o Sh. Nandan Swaroop Residing at: 79, Navjyoti Colony, Tehsil+ District: Hapur, Uttar Pradesh-245101	Rs. 52,26,437.59 + Interests + other bank dues as on 11.07.2022 plus	Equitable Mortgage of the land and building of House No: 79, Situated at Navjyoti Colony, Tehsil and Distt. Hapur (U.P), Belonging to Sh. Mahesh Chand Gupta S/O Sh. Nandan Sawroop, Boundaries as: East - House No: 50 of Sh. Dinesh Kumar Agarwal, West - Road, North - Road, South - House No: 80 of Sh. Gurcharan Agrawal
Loan Accounts have been classified as a NPA on 23-06-2022	and other charges	-Noad, North-Noad, South-House No. 60 01 Sh. Garcharan Agrawal
The shoup mentioned Perrowers (Cuprenters are advised (1) To collect the o	riginal nation from the undersid	up of for more and complete datails and (2) To now the halance outstanding

The above mentioned Borrowers / Guarantors are advised (1) To collect the original notice from the undersigned for more and complete details and (2) To pay the balance outstanding amount interest and costs etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid further action under the SARFAESI Act.

Dated: 25-07-2022, Place: Ghaziabad

2002 for an amount of Rs. 52,16,416.19/-

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank Branch: Kaushambi (K-1226) Shop No. 14A, Near Wave Cinema Kaushambi, Distt. - Ghaziabad, Ittar Pradesh - 201010, Phone: 010-2773377, Email: k1226@psb.co.in

Notice under Sec. 13(2) of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, Sent on following dates by Regd. Post / Speed Post / Courier to the following Borrower/Guarantor/Mortgagor in respect of following Loan account/s with Punjab & Sind Bank concerned branch. As mentioned below committed default in repayment of loans to the tune of amount mentioned below with further interest/cost at the agreed rate till date of repayment.

The Bank issued notice under the Act on following date calling upon you to repay the outstanding amount as mentioned below. The notice was sent to you by *Regd. post/*Courier/*Speed You are called upon to pay the dues amount as mentioned below together with interest from till date of payment within 60 days from the date of this notice failing which Bank will be

constrained to exercise its rights of enforcement of security interest as against the secured assets given in the schedule hereunder. This Notice is without prejudice to any other right remedy available to the Bank **Names of the Borrowers & Guarantors Description of the property Date of Demand Notice**

MU.		mor tgageu	Amount outstanding
1.	1. Shri. Abdul Vaseet (Borrower) s/o Shri Kari Naimuddin R/o Flat No. 1-2A (LIG), Ground Floor, Krishna Apartments-II Plot No. 51, Shalimar Garden Main, Pasonda, Ghaziabad, UP Also At: T Huts No. E-47/A-84, New Seema Puri, East Delhi-110095 Also At: D-245/218, Shahid Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, UP 201006 2. Shri. Harun Khan (Guarantor) s/o Shri Shabbeer Ahmad	building Krishna Apartments-II Plot No. 51, Shalimar Garden Main, Pasonda, Ghaziabad, UP. Details of the titles deed(s): Sale deed registered vide Book No-1, Volume No133381, on Page No. 265/328 at serial no-2085 on dated 31/03/2018 in the office of Sub Register-III Ghaziabad	Rs. 15,30,992.89/- (Rupees Fifteen Lakh Thirty Thousand Nine Hundred Ninety Two and Eight Nine Paise Only) as on 31.03.2022
1.	1. Mr. Shri Pal Sharma S/o Jai Bhagwan Sharma R/o H.No. 236, Gali No. 6, Phase-9, Shiv Vihar Delhi Also At: GF2, LIG, Plot No. No C-7, Ganga Vihar Saidullabad Loni, Ghaziabad UP-201102 2. Mr. Ravindra S/o Shri Badan Pal Singh R/o H. No. A-133/2 Gali No-4, Johri Pur Extn Gokal Puri North East Delhi-110094 A/c No 12261200000217 with Punjah & Sind Bank, Kaushamhi Branch	Sale deed registered vide Sr. No. 1318 in Bahi No. 1, Jild No. 30927 from page no 177 to 226 dated 21/01/2016 registered in Sub Registrar-IV Ghaziabad. Property bounded as: North: Service Lane, West: Park,	Rs. 7,77,650.09/- (Rupees Seven Lakh Seventy Seven Thousand Six Hundred Fifty and Nine Paise Only)

Date: 25.07.2022, Place: Ghaziabad

RattanIndia Power Limited **Extract from the Unaudited Consolidated Financial Results** for the Quarter Ended 30 June 2022

(Rs. Crore) Quarter ended Year ended **Particulars** 30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 31.03.2022 (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Audited) Total income from operations 823.23 874.36 842.79 3,259.52 (389.30)(306.39)(386.69)(1,543.72)Net loss for the period (before tax and exceptional items) (306.39)(389.30)(824.42)(1,981.45)Net loss for the period before tax (after exceptional items) Net loss for the period after tax (after exceptional items) (389.30)(306.39)(824.42)(1,981.45)(389.30)(306.07)(824.42)(1,982.01)Total comprehensive loss for the period [Comprising loss for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)] 5,370.11 Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 10 per Equity Share) 5,370.11 5.370.11 5,370.11 Other equity as shown in the audited balance sheet (8,031.91)Earnings per share (EPS) (Face value of Rs. 10 per Equity Share) -Basic (Rs.) $(0.72)^*$ $(0.57)^*$ $(1.54)^*$ (3.69)-Diluted (Rs.) $(0.72)^*$ $(0.57)^*$ $(1.54)^*$ (3.69)

Notes:

Sr. No	Particulars	Quarter ended			Year ended	
No	Particulars	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	
1	Total income from operations	842.79	823.23	874.36	3,259.52	
2	Net profit for the period before tax	113.95	137.29	87.10	348.13	
3	Net profit for the period after tax	113.95	137.29	87.10	348.13	
4	Total comprehensive income for the period [Comprising profit for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	113.95	137.64	87.10	347.54	

Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

The Auditors in their Auditor's Review Report on Consolidated Unaudited Quarterly Financial Results have brought out as below: Sinnar Thermal Power Limited (STPL), a wholly-owned subsidiary company, is yet to commence operations and has incurred a net loss amounting to Rs. 504.74 crores during the quarter ended 30 June 2022. Further, STPL's accumulated losses as at 30 June 2022 amount to Rs. 10,100,34 crores and its current liabilities exceed its current assets by Rs. 10,958.25 crores as of that date. STPL has also defaulted in repayment of borrowings from banks, including interest, aggregating to Rs. 9,816.91 crores up till 30 June 2022. These conditions along with other matters including termination of Letter of Intent ("LOI") by Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd (MSEDCL) in respect of LOI earlier issued by MSEDCL to enter into a power purchase agreement with STPL and withdrawal of the petition filed before Maharashtra Electricity Regulatory Commission (MERC) by STPL, as set forth in such note, indicate the existence of material uncertainty that may cast significant doubt about the STPL's ability to continue as a going concern. The management is of the view that going concern basis of accounting for STPL is appropriate owing to the mitigating factors mentioned in the aforesaid note and that no adjustments are necessary to the carrying value of the assets, including property, plant and equipment, Capital-work-in-progress of STPL aggregating to Rs. 7,711.45 crores

However, in the absence of sufficient evidence for the aforesaid assessment performed by the management including the uncertainty over the outcome of ongoing discussions with the lenders to secure firm and unconditional commitment for providing working capital loans /bank guarantees required for executing the PPA, we are unable to obtain sufficient appropriate evidence to comment on the appropriateness of going concern assessment of STPL by the management or adjustments, if any, that may further be required to be made to the carrying value of the assets, including property, plant and equipment of STPL as at 30 June 2022 and the consequential impact thereof on the

(d) The Auditors in their Auditor's Review Report on Standalone Unaudited Quarterly Financial Results have brought out as below: The Company has a non-current investment of Rs. 1,211.82 crore (net of impairment of Rs. 1,814.40 crore) and inter-corporate deposits (classified under current assets) of Rs.

26.05 crore recoverable from Sinnar Thermal Power Limited (formerly RattanIndia Nasik Power Limited) (STPL), a wholly owned subsidiary of the Company, as at 30 June 2022. The subsidiary company has incurred losses since its inception and is yet to commence operations. The accumulated losses in the subsidiary company amount to Rs. 10,100.34 crore as at 30 June 2022, and the management of the subsidiary company has determined that a material uncertainty exists as at 30 June 2022, that may cast significant doubt about the subsidiary company's ability to continue as a going concern. The management of the Company, based on an internal estimate, had recorded an impairment of Rs. 1,814.40 crore against carrying value of investment in STPL in earlier years. In the absence of adequate and appropriate evidence for such impairment assessment performed by the management and to support the appropriateness of the going concern assumption, we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to comment on adjustments, if any, that may further be required to be made to the carrying value of the above-mentioned non-current investment of Rs. 1,211.82 crore and

Managing Director

Date : 25 July 2022

inter-corporate deposits of Rs. 26.05 crore as at 30 June 2022; and the consequential impact thereof on the accompanying Statement.

Place : New Delhi

Brijesh Narendra Gupta

(b) The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations) and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results are available on the company's website www.rattanindiapower.com and on the

Registered Office: A-49, Ground Floor, Road No. 4, Mahipalpur, New Delhi - 110037 For and on behalf of the Board of Directors CIN: L40102DL2007PLC169082 RattanIndia Power Limited

New Delhi

CHIEF MANAGER

First Floor 2272.50 Sq. Ft

Opp. Sector-58, Khora Colony, Ghaziabad, Uttar Pradesh

In respect of loans availed by below mentioned borrowers / guarantors through BANK OF BARODA, which have become NPA with below mentioned balance outstanding on dates

Authorised Officer, BANK OF BARODA Also Note: Due to technical reason we hereby with drawn the earlier issued Demand Notice dated 04.07.2022 under Sub-Section(2) of Section 13 of the SARFAESI Act,

Notice under Sec.13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002

mortgaged Amount outstanding

Authorized Officer, Punjab & Sind Bank

*(EPS for the quarter are not annualised)

केंद्र सरकार उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में

इचलोन बिजटेक प्राइवेट लिमिटेड (ECHELON BIZTECH PRIVATE LIMITED } जिसका पंजीकृत कार्यालय – मकान सं. 285, सेक्टर -4, पंचकुला, हरियाणा 134112 में है,

याचिकाकर्ता आम जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कंपनी केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है. जिसमें कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को हरियाणा राज्य से तेलंगाना राज्य में बदलने में सक्षम बनाने के लिए शुक्रवार, 08 अप्रैल, 2022 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की

पुष्टि की मांग की गई है। कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित की प्रकृति को बताते हुए एक हलफनामे द्वारा समर्थित विरोध के आधार पर, अपनी आपत्तियों को केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को और आवेदक कंपनी को एक प्रति के साथ उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे दिए गए पते पर इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है या वितरित कर सकता है या पंजीकृत डाक

पंजीकृत कार्यालय — मकान सं. 285, सेक्टर —4, पंचकुला, हरियाणा 134112 इचलोन बिजटेक प्राइवेट के निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से समीर कांति प्रसाद जैन निदेशक डीआईएन : 09547777

डच बैंक एजी

मांग सूचना वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत उक्त अधिनियम के रूप में) की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

ऋणकर्तागणः 1. एकता प्रिंट्स, 2. श्री राजा बरुआ (अपने सभी विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से), 3. सुलेखा बरुआ। **(क)** आवासीय संपत्ति ए–88, सेक्टर–23, नोएडा, यू.पी. 201301, नोएडा पब्लिक स्कूल के पास, अधिमापन 250 वर्ग मीटर, जो निम्न प्रकार से बटेड एवं बाउंडेड है: उत्तर— प्लॉट नंबर ए—99, दक्षिण— 12 मीटर चौड़ी सड़क, पूर्व— प्लॉट नं. ए—89, पश्चिम— प्लॉट नंबर 87; ("संपत्तियों) का संदर्भः

संपत्ति खाता संख्या 300036557590019 के समक्ष ऋण रु. 1,50,00,000 / — (रुपए एक करोड़ पचास लाख मात्र) की एक राशि हेतु। 2. जीईसीएल खाता संख्या 320036557590019 के समक्ष ऋण रु. 28,98,000/— (रुपए अट्ठाईस लाख अट्ठानबे हजार मात्र) की राशि हेतु। (क) जबिक डच बैंक एजी, जिसका एक व्यवसाय स्थल भूम एवं 14वें तल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110001 (यहां इसमें इसके उपरांत ''बैंक'' के रूप में संदर्भित) में स्थित है, ने आप प्राप्तकर्ता को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण सुविधा को अन्य बातों के साथ—साथ अचल आवासीय संपत्ति पर बंधक के रूप में प्रतिभूत किया गया है, जो कि ए—88, सेक्टर—23, नोएडा, यू.पी. 201301, नोएडा पब्लिक स्कूल के पास, अधिमापन 250 वर्ग मीटर (यहां इसमें इसके उपरांत ''प्रतिभूत परिसंपत्तियों'' के रूप में संदर्भित) की आवासीय संपत्ति वाली संपत्ति के अधिकार, हक और हित के रूप में है।

कि आप, प्राप्तकर्ता ऋण खाते में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहे हैं और बैंक द्वारा बैंकिंग व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत अनुरक्षित बही खातों के अनुसार, यहां दिनांक 13.07.2022 को बकाया मूलधन, बकायों (प्रोद्भूतकृत विलंब शूल्कों सहित) के माध्यम से 🕏. 1,69,50,161.02 (रुपए एक करोड़ उनसठ लाख पचास हजार एक सौ इकसठ और दो पैसे मात्र) की एक राशि तथा इसकी संपूर्ण प्राप्ति तक इस पर ब्याज का बकाया विद्यमान है।

उक्त बकाया देय राशि के अतिरिक्त, आप भविष्य में, तब तक जब तक कि संपूर्ण बकाया राशि का भूगतान नहीं कर दिया जाता, देय ब्याज और दांडिक ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। आप प्राप्तकर्ता की ओर से लगातार चुक होते रहने के कारण, ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के तहत 05.03.2022 को बैंक द्वारा अनिष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। उपरोक्त चूक को ध्यान में रखते हुए, बैंक एतद्दवारा आप प्राप्तकर्ता से इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 (साठ) दिनों के अंदर अद्यतन ब्याज, लागतों और शुल्कों सहित संपूर्ण बकाया देय राशि का भूगतान करके बैंक के प्रति नियत अपनी देनदारियों को पूरा करने का निर्देश देता है। ऐसा करने में विफल रहने पर, बैंक निम्नलिखित में से सभी अधिकारों अथवा किसी एकाधिकार का प्रयोग करने का अधिकारी होगाः क) प्रतिभत परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए पट्टे. असाइनमेंट अथवा बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण अधिकार का प्रयोग करने सहित प्रतिभत परिसंपत्ति पर आधिपत्य ग्रहण करने का अधिकारी होगा।

ख) पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण और प्रतिभूत परिसंपत्ति प्राप्त करने के अधिकार सहित ऋणकर्ता की प्रतिभूत परिसंपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का अधिकारी होगा।

ग) प्रतिभूत परिसंपत्ति, जिस पर कि आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है, का प्रबंधन करने के लिए किसी भी व्यक्ति (यहां के उपरांत भविष्य में प्रबंधक के रूप में संदर्भित) को नियुक्त करने का अधिकारी होगा।

घ) किसी भी समय आवश्यक होने पर लिखित रूप में दी गई सूचना द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्ति उपार्जित कर चुके किसी भी व्यक्ति तथा जिसकी ओर से कोई धनराशि देय है अथवा आप प्राप्कर्ता को बैंक को प्रतिभृत ऋण का भूगतान करने के लिए जितनी भी पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता होगी, उसका भुगतान करना होगा।

कृपया सूचना प्राप्त करें कि आपको एतदृद्वरा बैंक की विशिष्ट पूर्व लिखित अनुमति के अलावा किसी अन्य तरीके से (हस्तांतरण, बिक्री, लीज या अन्य के माध्यम से) या तीसरे पक्ष का हित बनाने या प्रतिभृत परिसंपत्ति का लेन–देन करने से रोक दिया गया है। यह सूचना भी प्राप्त करें कि रोक का कोई भी उल्लंघन आपको एक वर्ष की एकावधि के कारावास अथवा अर्थदंड अथवा दोनों के लिए दंडपात्र निर्धारित करेगी। कृपया ध्यान दें कि यह अंतिम सूचना है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि बैंक पूर्णतः आपके जोखिम, जिम्मेदारी और लागतों पर आप प्राप्तकर्ता के विरुद्ध उपरोक्त संदर्भित किसी एक अथवा समस्त अधिकारों का प्रयोग करने के अपने अधिकार उल्लिखित किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने की सीमा में रहेगा।

दिनांकः 26.07.2022 **स्थानः** नोएडा

कृते डच बैंक एजी प्राधिकृत अधिकारी (दानिश खान)



83/502 नंदन प्रोस्पेरा गोल्ड

पुणे, महाराष्ट्र, 411045

ऑफ बालेवाडी हाई स्ट्रीट, बानेर,

मेगा निर्माण एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएनः L70101DL1983PLC015425 पंजी कार्यालयः ए-6/343बी, 14वीं मंजिल, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 वेबसाइटः www.mnil.in, ईमेल-आईडीः secretarial.mnil@gmail.com संपर्क नंबर: 011-49879687

39वी वार्षिक आम बैठक, बुक बंदी की नोटिस और रिमोट ई-वोटिंग सूचना

एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि मेगा निर्माण एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 20 अगस्त, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे, महाराजा बैंक्वेट्स, ए—1/20बी पश्चिम विहार, रोहतक रोड, नई दिल्ली–110063 में एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यवाहियों के निष्पादन के लिए आयोजित की जानी है।

जीएम की सूचना, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट और रिमोट ई—वोटिंग विवरण इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सभी सदस्यों को भेज दिए गए हैं जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। शेयरधारकों को नोटिस से सम्बंधित ईमेल भेजने का कार्य पुरा होने की तिथि 25 जुलाई, 2022 है। यदि आपने कंपनी / डिपॉजिटरी में पंजीकरण नहीं कराया है, तो कृपया वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक

रिपोर्ट और ई–वोटिंग के लिए लॉग इन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी को पंजीकत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। भौतिक रूप में स्वामित्वः ईमेल पता दर्ज करने के लिए अपने फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे),पैन (पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी) प्रदान करते हुए कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर

एजेंटों, बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को beetalrta@gmail.com पर एक

डीमैट रूप में स्वामित्वः कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनसार अपना ईमेल पता पंजीकत करें।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (नियम) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के नियमन ४४ के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (रिमोट ई–वोटिंग) सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। तदनुसार, एजीएम की सचना में दी गई कार्यवाही के विषयों का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है। कंपनी ने ई—वोटिंग सविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की सेवाए

सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि:

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा बुधवार, 17 अगस्त, 2022 को (पूर्वाह्न 9:00 बजे भा.मा.स.) को शुरू होगी और शुक्रवार, 19 अगस्त, 2022 को (सायं 5:00 बजे भा.मा.स) समाप्त होगी। पूर्वोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी और रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

वोटिंग का अधिकार (रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में मतपत्र के माध्यम से मतदान के लिए) कट-ऑफ तिथि यानी शनिवार, अगस्त 13, 2022 के अनुसार कंपनी के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के चुकता मूल्य के अनुसार माना जाएगा।

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी क सदस्य बन जाता है तथा कट–ऑफ तिथि यानी शनिवार, 13 अगस्त, 2022 के अनुसार शेयर धारण करना है , वह www.evoting@nsdl.co.in या आरटीए को beetalrta@gmail.com पर एक अनुरोध (नाम, फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी, जैसा भी मामला हो और शेयरहोल्डिंग के साथ भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूद यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल गया है तो वह www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "फॉरगॉट यूजर डिटेल्स/पासवर्ड" विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है या एनएसडीएल से टोल फ्री नंबर परः 1800-22-990 फ

मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भार लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतपत्र वे माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि अर्थात शनिवार, 13 अगस्त, 2022 को सदस्यों / लाभार्थी स्वामियं के रजिस्टर में दर्ज है, वह ही बैठक में रिमोट ई-वोटिंग/वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदा होगा। कट-ऑफ तिथि के अनुसार जो व्यक्ति इसका सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचन

उक्त एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.mnil.in पर उपलब्ध है और यह एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त यह बैठक की तारीख तक सभी कार्य दिवसों में कार्य अवधि के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए भी

ई-वोटिंग निर्देशों के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों को पढ़ें डलेक्टॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के सहायता अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या श्री भावेंद्र झा (वरिष्ठ प्रबंधक), मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल 99, मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुख दास मंदिर के पास, नई दिल्ली -110062 beetalrta@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से या टेलीफोन नंबर:011- 29961281-83, फैक्स नं :011-29961284 से संपर्क कर सकते हैं। श्री विजय जैन (मा. नं. 50242, सीओपी नंबर 18230) प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, को ई-वोटिंग / पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस के साथ भेजे गए पत्र में निहित है कोई भी प्रश्नधंशकायत हेतु सुश्री सुश्री कनिका चावला,कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी, मेग निर्माण एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड,पंजी. कार्यालयः ए-6/343बी, पहली मंजिल,पश्चिम विहार, नः

दिल्ली-110063, ईमेलः secretarial.mnil@gmail.com से सम्पर्क किया जा सकता है। जीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर मतदान के परिणाम एजीएम के समापन के 48 घंटों के भीत घोषित किए जाएंगे। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को कंपनी की वेबसाइट www.mnil.ir और एनएसडीएल की वेबसाइट पर अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत निदेशक द्वारा परिणाम की घोषणा वे त्ररंत बाद प्रदर्शित किया जाएगा तथा परिणामों के बारे में स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा परिणाम को पंजीकत कार्यालय ए—6 / 343बी. प्रथम तल. पश्चिम विहार, नई दिल्ली—110063 में भी प्रदर्शित

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियमों के नियम 10 और विनियम 42 के साथ पिठत अधिनियम की धारा 91 के अनुसरण में आगे नोटिस दिया जाता है कि सदस्यों का रिजिस्टर और कंपनी का शेयर हस्तांतरण बुक्स एजीएम के उद्देश्य के लिए शनिवार, 13 अगस्त, 2022 से शनिवार, 20 अगस्त, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) को बंद रहेंगी।

कृते मेगा निर्माण एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

दिनांक: 25.07.2022 स्थान : नई दिल्ली

मेटल कोटिंग (इण्डिया) लिमिटेड सीआईएन : L74899DL1994PLC063387 ई-मेल : info@mcilindia.net; वेबसाइट : www.mcil.net, दूरभाष : +91-11-41808125

के सदस्यों की 28वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से बधवार, 17 अगस्त, 2022 को 12,30 बजे अप. (भा.मा.स.) आयोजित की जायेगी। कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को सभा–स्थल के रूप में माना में की जायेगी। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) तथा स्टॉक एक्सचैंज बोर्ड ऑफ इंडिया (''सेबी'') द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020, रूप से संबंधित सर्क्युलर्स वर्णित) तथा लागु होने वाले अन्य सर्क्युलर्स के अनुसार कम्पनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जायेगी। संबंधित सर्क्युलर्स के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों के पास 25 जुलाई, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा चुकी है जिनके ई–मेल पते कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट (''आरटीए'')/डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के पास पंजीकृत हैं। उपर्युक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.mcil.net, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी के आरटीए लिंक इनटाइम इण्डिया

कम्पनी एजीएम में पारित होने वाले संकल्पों पर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए सदस्यों हेत इलेक्टॉनिक मतदान (ई–वोटिंग) सेवाओं की सुविधा एलआईआईपीएल के माध्यम से उपलब्ध करा रही है। कट–ऑफ तिथि अर्थात 10 अगस्त, 2022 तक भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर धारण

i) रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 13 अगस्त, 2022 को 9.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) पर प्रारम्भ होगी और मंगलवार, 16 अगस्त, 2022 को 5.00 बजे एक बार मतदान के उपरान्त सदस्य को बाद में इसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। i) कोई व्यक्ति जो कम्पनी का शेयर अर्जित करता है और एजीएम की सचना के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात

i) भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने अपने ईमेल पते अद्यतन नहीं कराये हैं. से अनुरोध है कि cs@mcilindia.net पर

कम्पनी अथवा कम्पनी के आरटीए के पास लिखित अनुरोध भेजकर आपका ईमेल पता अद्यतन करा लें। डिमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनरोध है कि अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास ईमेल पता अद्यतन कराएें। a) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिय है वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु वे पुनः मतदान के

b) इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम द्वारा मतदान की सविधा एजीएम में भी उपलब्ध करायी जायेगी और एजीएम में उपस्थित होने वाले वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किया है वे कथित सविधा के माध्यम से एजीएम में मतदान कर सकते हैं।

iii) किसी पुछताछ के लिए सदस्य https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्बड क्वेश्चन्स (एफएक्य) तथा ई-वोटिंग निर्देश देख सकते हैं अथवा enotices@linkintime.co.in पर ई-मेल करें या 022 - 491 86175 पर सम्पर्क करें।

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 25 जुलाई 2022

अदिति सिंह कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

शाखा कार्यालयः गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) परिशिष्ट-IV (नियम-8(1)) देखें

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 04/05/2022 जारी की थी, जिसके द्वारा कर्जदारों श्री अनिल बिध्रुड़ी पुत्र जगपाल (ऋण खाता 3943368186), को सूचना में उल्लिखित राशि रु.29,63,448 / - (उनतीस लाख तिरसठ हजार चार सौ अड़तालिस रूपये मात्र) 04.05.2022 को बकाया, आगे ब्याज, खर्च एवं अन्य शुल्क आदि के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 22 जुलाई 2022 को ले लिया है। कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन रु.29,63,448/- (उनत्तीस लाख तिरसठ हजार चार सौ अड्तालिस रूपये मात्र) 04.05.2022 को, आगे ब्याज, व्यय एवं अन्य शुल्क आदि के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली शाखा के प्रभार के भगतान के अधीन होगा।

आपका ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

सम्पत्ति का विवरण

यहाँ स्थित सम्पत्ति का साम्यिक बंधक : आरजेड-2039/26, गली नं.26, पहली मंजिल पर बाएं हाथ का हिस्सा, तुग़लकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019. सम्पत्ति की सीमाएः

क्मार अग्रवाल का मकान नं. 50, पश्चिम में – रोड, उत्तर में – रोड,

अन्य प्रभार इत्यादि सहित | दक्षिण में – श्री गरूचरण अग्रवाल का मकान नं. 80

दक्षिणः गली नं.26 1/2 उत्तरः शेष भाग पूर्वः अन्य की सम्पत्ति

तिथि: 22.07.2022

स्थानः नई दिल्ली

पश्चिमः अन्य की सम्पत्ति

सुश्री कनिका चावला एम. नं. ए50543

प्राधिकत अधिकारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया



ग्रीन इंडिया प्लेस, लेबर चौक, सैक्टर-58 के विपरीत, खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद, यू.पी.

फोनः 0120-2491313, 0120-2491413, ईमेलः khora@bankofbaroda.co.in वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002

के अंतर्गत प्रतिभृतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी. उसकी विस्तत मांग सचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं

जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत डाक पावती सहित / स्पीड पोस्ट / कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थीं, जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई / जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सुचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शायी राशी 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियाँ जो कि निम्नलिखित ऋणियों / जमानतदारों के नाम है, उनका आधिपत्य ले लिया जायेगा और कब्जा सूचना / ई—नीलमी सूचना में कर्जदार व गारंटरों की फोटो प्रकाशित की जायेगी। बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

कर्जदार/गारन्टर के नाम	मांग सूचना की तारीख	सिक्योर्ड
एनपीए की तारीख	बकाया राशि	आस्तियों का विवरण
मैसर्स श्री जी इंटरप्राइजेज (प्रोप – श्रीमती शालिनी जिंदल), 79, नवज्योति कॉलोनी, तहसील + जिलाः हापुड़, उत्तर प्रदेश – 245101 <u>औरः</u> मैसर्स श्री	11-07-2022	गाजियाबाद, यू.पी — 201002 में संस्थापित
जी एंटरप्राइजेज (प्रोपराईटर — श्रीमती शालिनी जिंदल), 19 / 325ए, पांडव नगर, गाजियाबाद, यू.पी.—201001 गारंटर: श्री महेश चंद गुप्ता पुत्र श्री नंदन स्वरूप निवासी: 79, नवज्योति	दिनांक 04.07.2022 तक	साम्यिक बंधक भूमि एवं भवन जोकि मकान नं. 79, नवज्योति कॉलोनी, तहसील और जिला हापुड़ (यू.पी.) में स्थित, यह सम्पत्ति श्री महेश चंद गुप्ता पुत्र श्री नंदन स्वरूप के नाम पर है। चौहदी : पूरब में – श्री दिनेश

कॉलोनी, तहसील, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश-245101 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि: 23-06-2022

उक्त वर्णित ऋणियों / जमानतदारों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त कर लें (2) मांग सूचना में दर्शायी गयी बकाया राशि ब्याज एवं खर्चे आदि सहित मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।

अन्य बैंक का बकाया एवं

दिनांक : 25.07.2022, स्थान : गाजियाबाद

www.readwhere.com

प्राधिकत अधिकारी. बैंक ऑफ बडौदा यह भी ध्यान दें: तकनीकी कारणों से हमने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (2) के तहत 52,16,416.19 रुपये की राशि के लिए पूर्व में जारी डिमांड नोटिस दिनांक 04.07. 2022 को जारी नोटिस को वापस ले रहे है।

लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006 कब्जा सुचना सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत

पंजीकृत कार्यालयः 'त्रिशुल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मन्दिर के सामने,

जबकि अबोहस्ताक्षरी ने एक्सिस बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप मे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभृतिहित वर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन ∕नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ संपठित धारा 13(12) के तहत पदत्त ाक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित कर्जदार ∕गारन्टर को नीचे दिये विवरण के अनुसार मॉग सूचनाऐ जारी की थी जिनमे उनको सूचना मे र्णित बकाया राशि का भूँगतान उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मोंग की थी। कर्जदार उक्त राशि चकाने मे मिफल रहें है एतदवारा कर्जदार(में) (गारंटर(में) और जनसाधारणको सचना दी है कि अधोहस्ताक्षी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 के उपनियम 4 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य म्नलिखित दिनांक को ग्रहण कर लिया हैं। ऋणी को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतयाँ एतद द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार, ऐक्सिस बैंक लि. के प्रभार के अध्यधीन होगा। **कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत** आस्तियों को छुड़ाने हेतु उपलब्ध समय के सम्बन्ध मे, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

मॉग सूचना की तिथि कर्जदार /सह–कर्जदार व राशि (रू.) गी चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री माल चन्द | आवासीय संपत्ति पट्टा नं. 07, गांव ड्रिकया, तहसील | 20/07/2022 (सह–आवेदक / बंधककर्त्ता) दातारामगढ़, सीकर, राजस्थान में स्थित है, चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री माल चन्द

टिंस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेची जाएगी, इस प्रावधान के तहत सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 व नयम 8 और 9 कर्जदार का ध्यान सरक्षित परिसम्पतियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में **सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13** प्राधिकृत अधिकारी (एक्सिस बैंक लि.) है उप खण्ड (8) के प्रावधानोंके लिए आमंत्रित किया गया है।

शादी एण्टरप्राईजैज पंजीकृत कार्यालय - अपर दोआब शुगर मिल, शामली (उत्तर प्रदेश).247776 CIN: L51909UP1933PLC146675

Website-www.sirshadilal.com E-mail% udsm_shamli@sirshadilal.com

रतदद्वारा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (एल. ओ. डी. आर.) अधिनियम २०१५ के नियम २९ (१)(ए) के अनुसार सूचित किया जाता है कि कम्पनी के संचालन मंडल की बैठक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनॉक 30 जौलाई 2022, को होनी निष्वित हुई है, जिसमें 30 जून 2022 को समाप्त हुये त्रैमासिक अपरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कम्पनी के अधिकारी/संचालको एवं उनके रिप्तेदारो के लिये कम्पनी की प्रतिभृतियों की खरीद फरोस्त कम्पनी के वित्तीय परिणामों के प्रकाषित होने के 48 घंटे तक बब्द रहेगी।

अजय क्मार जैन

कम्पनी सचिव

कते सर शादी लाल एण्टरपार्डजेज लिभिटेड

दिनॉक : 23.07.2022 THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES

ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD (Please scan this QR code to view the Addendum)

OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED

स्थान : शामली



UNIPARTS INDIA LIMITED

RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION. DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFER OF EQUITY SHARES

Our Company was incorporated as "Uniparts India Limited" under the Companies Act, 1956 at Delhi, pursuant to a certificate of incorporation dated September 26, 1994 issued by the Registrar of Companies, Delhi and Haryana at Delhi ("RoC"). Our Company received a certificate of commencement of business on September 7, 1998. from the RoC. For details of change in the Registered Office, see "History and Certain Corporate Matters - Changes in the Registered Office" on page 180 of the draft red herring prospectus dated April 25, 2022 (the "DRHP").

Registered Office: Gripwel House, Block - 5, Sector C 6 & 7, Vasant Kunj, New Delhi 110 070, India; Tel: +91 11 2613 7979; Corporate Office: 1st Floor, B208, A1 & A2, Phase-II, Noida 201 305, Uttar Pradesh, India; Tel: +91 120 458 1400; Contact Person: Jatin Mahajan, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: + 91 120 458 1400;

E-mail: compliance.officer@unipartsgroup.com; Website: www.unipartsgroup.com; Corporate Identity Number: U74899DL1994PLC061753 NOTICE TO INVESTORS: ADDENDUM TO THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS (THE "ADDENDUM")

OUR PROMOTERS: GURDEEP SONI AND PARAMJIT SINGH SONI

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 15,731,942 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF UNIPARTS INDIA LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [+] PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [+] MILLION, COMPRISING AN OFFER FOR SALE OF UP TO 15,731,942 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, COMPRISING 1,700,000 EQUITY SHARES BY THE KARAN SONI 2018 CG-NG NEVADA TRUST AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 1,700,000 EQUITY SHARES BY THE MEHER SONI 2018 CG-NG NEVADA TRUST AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION AND 2,250,000 EQUITY SHARES BY PAMELA SONI AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION (COLLECTIVELY THE "PROMOTER GROUP SELLING SHAREHOLDERS"), 7,180,642 EQUITY SHARES BY ASHOKA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED ("ASHOKA") AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION AND 2,154,192 EQUITY SHARES BY AMBADEVI MAURITIUS HOLDING LIMITED ("AMBADEVI") AGGREGATING UP TO ₹ •] MILLION, ("ASHOKA" AND "AMBADEVI" ARE TOGETHER REFERRED TO AS THE "INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS") AND 177,378 EQUITY SHARES BY ANDREW WARREN CODE AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 177,378 EQUITY SHARES BY JAMES NORMAN HALLENE AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 177,378 EQUITY SHARES BY KEVIN JOHN CODE AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 57,420 EQUITY SHARES BY DENNIS FRANCIS DEDECKER AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 41,730 EQUITY SHARES BY MELVIN KEITH GIBBS AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 24,706 EQUITY SHARES BY WALTER JAMES GRUBER AGGREGATING UP TO ₹ [+] MILLION, 21,556 EQUITY SHARES BY WENDY REICHARD HAMMEN AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 20,870 EQUITY SHARES BY MARK LOUIS DAWSON AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 16,366 EQUITY SHARES BY BRADLEY LORENZ MILLER AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 10,440 EQUITY SHARES BY MARY LOUISE ARP AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 8,340 EQUITY SHARES BY DIANA LYNN CRAIG AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 7,710 EQUITY SHARES BY MARC CHRISTOPHER DORAU AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, 5,010 EQUITY SHARES BY CRAIG A JOHNSON AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION AND 826 EQUITY SHARES BY MISTY MARIE GARCIA AGGREGATING UP TO ? [1] MILLION (TOGETHER, THE "INDIVIDUAL SELLING SHAREHOLDERS", AND TOGETHER WITH THE PROMOTER GROUP SELLING SHAREHOLDERS AND THE INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS ARE COLLECTIVELY, THE "SELLING SHAREHOLDERS") (THE "OFFER FOR SALE" OR THE "OFFER") THE OFFER WILL CONSTITUTE 34.86% OF OUR POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL.

This is with reference to the DRHP filed with the Securities and Exchange Board of India in relation to the Offer. In this regard, Bidders may note the following:

The names of individuals and entities forming part of the Promoter Group of the Company have been disclosed in the section "Promoter and Promoter Group" beginning on page 206 of the DRHP. Consequent to the disposal by SEBI of the exemption application dated April 25, 2022 made to SEBI under Regulation 300(1)(c) of the SEBI ICDR Regulations, the Company is required to include Navjit Bindra, sister of the spouse of one of our Promoters, Paramjit Singh Soni, as a member of the Promoter Group in accordance with Regulation 2(1)(pp) of the SEBIICDR Regulations and is required to disclose the same in the DRHP.

The sub-section titled "Promoter Group" of the section "Promoter and Promoter Group" beginning on page 208 shall now read as follows in the DRHP: Natural persons who are part of the Promoter Group

Name of Promoter	Name of relative	Relationship
Gurdeep Soni	Pamela Soni	Spouse
	Arjun Soni	Son
	Angad Soni	Son
	Tanya Kohli	Daughter
	Paramjit Singh Soni	Brother
	Sonu Kapoor	Sister
	Harminder Chatha	Spouse's mother
	Neela Goolry	Spouse's sister
Paramjit Singh Soni	Sarabjit Soni	Spouse
AX 84	Karan Soni	Son
	Meher Soni	Daughter
	Gurdeep Soni	Brother
	Sonu Kapoor	Sister
	Santosh Kaur	Spouse's mother
	Jaswinder Singh Bhogal	Spouse's brother
	Naviit Bindra	Snouse's sister

SKG Engineering Private Limited;

26. Soni Holdings (Partnership Firm);

31. Tima Trading Private Limited; and

28. The Karan Soni 2018 CG-NG Nevada Trust:

The Meher Soni 2018 CG-NG Nevada Trust;

30. The Paramiit Soni 2018 CG-NG Nevada Trust;

25. Soni Family Foundation INC;

Sweaty Spirit Apparel Limited;

24. Soni Foundation;

32. 7 Days Film LLC.

Entities forming part of the Promoter Group

The entities forming part of our Promoter Group are as follows:

Amazing Estates Private Limited; Avid Maintenance LLP;

Bluebells Homes Private Limited; Charisma Homes LLP;

Farmparts Company (Partnership Firm); Gifting Trust of Karan Soni;

Gifting Trust of Meher Soni;

G.K.P. Farms Private Limited; Gripwel Fasteners (Partnership Firm);

Gurdeep Soni (HUF)

Indento International (Partnership Firm);

SGATrading Private Limited; 22. Silveroak Estates Private Limited; b) The following risk factor shall be added as Risk Factor number 50A of the DRHP

Navjit Bindra, an immediate relative of one of our Promoters, Paramjit Singh Soni and deemed to be a part of the Promoter Group under SEBI ICDR Regulations has not provided consent, information or any confirmations or undertakings pertaining to herself which are required to be disclosed in relation to the Promoter Group in this DRHP. Our Company had sought and requested Navjit Bindra, an immediate relative of one of our Promoters, Paramijt Singh Soni and deemed to be a part of the Promoter Group under the SEBI ICDR Regulations to provide the confirmations and undertakings in respect of herself as a member of the Promoter Group of our Company as

Leon India (Partnership Firm);

14. Paper Bag Entertainment Inc.;

Paramiit Soni Gifting Trust;

Sarabjit Soni Gifting Trust;

20. Sepoy Drinks Private Limited;

Sepoy Beverages LLP;

13. Ninety Hospitality LLP

Paramjit Soni (HUF);

17. P. Soni Family Trust;

well as any other entities/bodies corporate/firms/HUFs that she may be interested in which would qualify as part of the Promoter Group of the Company. However, despite repeated attempts, our Company did not receive the relevant confirmations and undertakings from her. Our Company, pursuant to its letter dated April 25, 2022 had sought an exemption from the inclusion of Navjit Bindra, sister of the spouse of one of our Promoters, Paramjit Singh Soni, from inclusion in the Promoter Group of our Company on account of not receiving the relevant information, confirmations and undertakings from

Navjit Bindra and also regarding the entities she may be interested in, for inclusion in this Draft Red Herring Prospectus. SEBI, pursuant to its letter dated June 15, 2022 has directed our Company to include Navjit Bindra and entities she may be interested in, as part of the promoter group of the Company. In view of Navjit Bindra's refusal to form part of the Promoter Group of our Company, and non-receipt of the relevant confirmations and undertakings from her, in order to comply with the disclosure requirements specified under the SEBI ICDR Regulations pertaining to members of the Promoter Group of issuer companies, our Company has disclosed such details pertaining to Navjit Bindra in the section titled "Promoter and Promoter Group" beginning on page 206 of the DRHP, only to the extent available and accessible to our Company from certain publicly available information published on the websites of government bodies / authorities. However,

given that certain of such undertakings and confirmations are based only on publicly available information published on the websites of government bodies / authorities our Company has not been able to identify any body corporate in which twenty per cent or more of the equity share capital is held by Navjit Bindra or a firm or Hindu Undivided Family in which Navjit Bindra is a member and consequently, our Company has not been able to identify all entities which may be considered as a part of the Promoter Group of the Company and/or include disclosures in the DRHP pertaining to any factual confirmations required to be made in relation to the Promoter Group members. There can be no assurance that all relevant and/or complete disclosures pertaining to Navjit Bindra and/or entities she may be interested in, as members of the Promoter Group of the Company are included in the DRHP. To that extent, the incremental disclosures made in the section titled "Promoter and Promoter Group" in relation to Navjit Bindra beginning on page 206 of the DRHP, are limited and based on the publicly available information published on the websites of government bodies / authorities.

The disclosures pertaining to the aforementioned exemption application dated April 25, 2022, at pages 26, 208 and 406-407 of the DRHP, under the sections titled "Summary of the Offer Document", "Promoter and Promoter Group" and "Other Regulatory and Statutory Disclosures", respectively, will be suitably updated to reflect the developments pertaining to the disposal of the said exemption application by SEBI in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, SEBI and the Stock Exchanges. The section titled "Material Contracts and Documents for Inspection", beginning on page 444 of the DRHP will also be ated in the Red Herring Prospectus and Prospectus to include details of our exemption application/letter to SEBI dated April 25, 2022, and SEBI's letter dated June 15, 2022, disposing of our application. The DRHP shall be read in conjunction with this Addendum. The information in this Addendum supplements the DRHP and updates the information in the DRHP, as applicable. However, this Addendum does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the DRHP and the date hereof, and accordingly does not include all the changes and/or updates that will be included in the Red Herring Prospectus and the Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS			REGISTRAR TO THE OFFER	
AXISCAPITAL	DAM	JM FINANCIAL	LINK Intime	
Axis Capital Limited 1º Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre, PB Marg, Worli, Mumbai 400 025, Maharashtra, India Tel: + 91 22 4325 2183 E-mail: uil.ipo@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in Investor Grievance E-mail: complaints@axiscap.in Contact Person: Ankit Bhatia/Pratik Pednekar SEBI Registration No.: INM000012029	DAM Capital Advisors Limited (Formerly IDFC Securities Limited) One BKC, Tower C, 15° Floor, Unit no. 1511, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India Tel: +91 22 4202 2500 E-mail: uniparts.ipo@damcapital.in Investor Grievance E-mail: complaint@damcapital.in Website: www.damcapital.in Contact Person: Chandresh Sharma SEBI Registration No.: MB/INM000011336	JM Financial Limited 7° Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025 Maharashtra, India Tel: +91 22 6630 3030/ +91 22 6630 3262 E-mail: uniparts.ipo@jmfl.com Investor Grievance E-Mail: grievance.ibd@jmfl.com Website: www.jmfl.com Contact person: Prachee Dhuri SEBI Registration No.: INM000010361	Link Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli West, Mumbai 400 083, Maharashtra, India Tel: + 22 4918 6200 E-mail: uniparts.ipo@linkintime.co.in Investor grievance e-mail: uniparts.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration No.: INR0000004058	

Place: New Delhi Date: July 25, 2022

On behalf of Board of Directors Company Secretary and Compliance Officer

For Uniparts India Limited

Uniparts India Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated April 25, 2022 with SEBI on April 26, 2022. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and the websites of the BRLMs, i.e., Axis Capital Limited, DAM Capital Advisors Limited (Formerly IDFC Securities Limited) and JM Financial Limited at www.axiscapital.co.in, www.damcapital.in and www.jmfl.com, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section entitled "Risk Factors" on page 27 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision. The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act") or any other

applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in offshore transactions in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made.